

**राज्यपाल ने छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया**

**जो मेहनत करेगा वहीं बढेगा - श्री नाईक**

लखनऊ: 03 सितम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान प्रेक्षागृह में हिन्दुस्तान समाचार पत्र के मीडिया वेंचर्स द्वारा आयोजित 'हिन्दुस्तान ओलम्पियाड-2015' के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हिन्दुस्तान समाचार पत्र के मीडिया वेंचर्स द्वारा प्रदेश एवं जनपद स्तर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा एक से बारह तक के लगभग एक लाख छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। राज्यपाल ने कार्यक्रम में कानपुर के प्रियांश पाण्डे एवं बागपत की अलीशा को रुपये ग्यारह हजार राशि का चेक, बहराइच की इलिमा एवं आगरा की संध्या भाटिया को रुपये नौ हजार एक सौ राशि का चेक तथा इलाहाबाद के रितेश एवं आगरा के नुसरत को रुपये सात हजार एक सौ राशि का चेक, मेडल, व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय सम्पादक श्री के०के० उपाध्याय सहित हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान टाईम्स से जुड़े अन्य पत्रकार व पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में विभिन्न जनपदों से आये विद्यार्थी भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के आधार पर विश्व की दूरियाँ मिट रही हैं। प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ा है, जो मेहनत करेगा वहीं बढेगा। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। विश्व में ज्ञान के क्षेत्र में भारत का विशिष्ट स्थान रहा है। विदेश से लोग यहाँ ज्ञान अर्जित करने आते थे। जबकि अब भारतीय लोग विदेश में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी नयी पीढ़ी को उठानी चाहिए।

श्री नाईक ने कहा कि युवा गुणवान बनें और देश को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व प्रदान करें। सफलता के लिए जानार्जन आवश्यक है। केवल लिखित परीक्षा पास करना पर्याप्त नहीं है। किताबी कीड़ा न बने बल्कि स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी भाग ले। खुद का विकास होगा तो देश का विकास होगा। देश के विकास के लिए प्रयास एवं मेहनत करें। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति उमंग होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि युवा पढ़ाई के साथ-साथ स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दें। उन्होंने व्यक्तित्व विकास के चार मंत्र बताते हुए कहा कि सदैव प्रसन्नचित रह कर मुस्कराते रहें, दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें और अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करें, दूसरों को छोटा न दिखाये तथा हर काम को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें।

हिन्दुस्तान समाचार पत्र के स्थानीय सम्पादक श्री के०के० उपाध्याय ने कहा कि 'हिन्दुस्तान ओलम्पियाड-2015' में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग एक लाख छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। वर्ष 2016 में तीन लाख छात्र-छात्रायें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें बिहार और झारखण्ड प्रदेश के छात्र-छात्रायें भी शामिल होंगे। डिजिटल युग का प्रारम्भ हो रहा है, प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग ज्ञान के लिए करें।

----

